

सुठियूं आदतूं

बार आईदह जा अबा आहिनि, जिनि जूं खराबु या सुठियूं आदतूं बालपुण खां शुरू थी वेंदियूं आहिनि। इनकरे माउ पीउ बारनि में नंढपुण खां ई सुठियूं आदतूं विज्ञण जी कोशिश कनि, जीअं बार संस्कारी थी सघनि।

समाज ऐं देश जी तरकी बारनि ते आधारु रखे थी। आदर्श ऐं लाइकु बार पंहिंजे समाज ऐं मुल्क लाइ वडो सहारो आहिनि।

अजु असां 'सुठियुनि आदतुनि' जे बारे में पढंदासीं।



सिखण जा नतीजा

हिन सबक खे पढण खां पोइ शागिर्द-

- सुठियूं आदतूं सुजाणनि था।
- सुठियूं आदतूं पंहिंजे जीवन में अपनाइनि था।
- सुठियुनि आदतुनि रस्ते सुठा संस्कार पैदा कनि था।



9.1 बुनियादी सबकु

हाणे अचो त हीउ सबकु ध्यान सां पढूं ऐं समुझूं-

सुबूह जो उथण सां ऐं रात जो सुम्हण खां अगु प्रार्थना कजे।





वडनि जी रोज़
आसीस वठिजे।

छिक अचण ते
रुमाल कमि आणिजे।



पंहिंजूं शयूं जगह ते
ठाहे रखिजनि।




वंडे विरिहाए खाइजे।



वडनि जी शेवा कजे।

खाधो खाइण खां अगु
हथ धोअणु घुरिजनि।




सिंधी । सुठियूं आदतूं





हिक ब्रिए जी
मदद कजे।

पंहिंजी ग़लती मत्रिजे
ऐं माफ़ी वठिजे।



वडुनि सां फ़ज़ीलत
सां ग़ाल्हाइजे।



9.2 अचो त समुझूं



हिन सबक़ में सुठियूं आदतूं विज्ञण जी ग़ाल्हि चई वेई आहे। छिक अचण ते मुंहं ते रुमाल रखणु घुरिजे, पाण में वंडे विरिहाए खाइणु घुरिजे। खाधो खाइण खां अगु हथ साफ़ करणु घुरिजनि। वडुनि जी शेवा करे उन्हनि खां आसीस वठणु घुरिजे। सदाई हिक ब्रिए जी मदद कजे।





सबक़ बाबत सुवाल 9.1

सही जवाब चूडे ब्रेकेट (✓) में लिखो-

1. वडुनि खां रोज़ु वठिजे-

(अ) दया

(ब) आसीस

(स) पाणी

(द) सेवा

()

2. हिक बिए जी कजे-

(अ) गिला

(ब) शिकायत

(स) मदद

(द) चुगली

()



मशगूलियूं 9.1

- पंज सुठियूं आदतूं लिखो।



तव्हीं छा सिखिया

- सुठियूं आदतूं असां जी ज़िंदगीअ जा ज़ेवर आहिनि।
- सुठियुनि आदतुनि सां समाज में पंहिंजो ऐं वडुनि जो नालो रोशन कजे।



वधीक ज़ाण

नढपुण में बारनि खे सुठियूं आदतूं सेखारण घुरिजनि। वडुनि जी इज़त ऐं शेवा करणु, खाधो खाइण खां अगु हथ धुअणु, वंडे विरिहाए खाइणु, इहे सभु संस्कार माउ पीउ बारनि खे सेखारीनि त बार सुठा लछण सिखंदा ऐं संस्कारी थींदा।

जीवन में सुठियूं आदतूं अपनाइण सां जीवन नेमाइतो थींदो आहे, मानसिक ऐं शारीरिक तंदुरुस्ती काइमु रहंदी आहे। ज़िंदगी खुशहाल बणिजी वेंदी आहे।





सबक़ जे आख़िर जा सुवाल

1. सही (✓) या ग़लत (X) जा निशान लगायो-



(ii)



(iv)



2. सही लफ़्ज़ चूँडे ख़ाल भरियो-

(जल्दी, माफ़ी, खाधो, आशीर्वाद, शेवा)

- (i) वडनि खां वठिजे।
(ii) असांखे रात जो सुम्हणु घुरिजे।
(iii) वडनि जी कजे।
(iv) खाइण खां अगु में हथ धोअणु घुरिजनि।
(v) ग़लती थियण ते घुरिजे।

3. सुठियूं आदतूं सुजाणे गोलो पायो-

सचु गाल्हाइणु, कूडु गाल्हाइणु, जानवरनि खे तंग करणु,
पाण में विढणु, वडुनि जी इजत करणु, मोबाईल ते गेम खेडुणु,
सवेल सुम्हणु, देर सां उथणु।



सबक़ बाबत सुवालनि जा जवाब

1. (ब)

2. (स)



नवां लफ़्ज़

- सवेल = जल्दी
- आसीस = आशीर्वाद
- ग़लती = भुल
- मोक़ो = वझु

